

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 608]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1693.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, आगर मालवा, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, आगर मालवा, जिला आगर मालवा	अध्यक्ष	-	-	शंकुन्तला जायसवाल	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	हसीना बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	ओमप्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	किरण विजय	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	सुनीता जगदीश गवली	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	मोहम्मद मिस्कीन मुलतानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	प्रेमा बाई रामचन्द्र कसेरा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सीमा महेन्द्र अलंकार (नाना)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	सुनील (भूरु) टांक	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	उजमा परवेज (राजा सहाब)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	देवेन्द्र दाउलाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुनील जैन (गलिया)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सीमा कमल जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रंजना मोहनलाल सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सिरोज खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मनीष विष्णु प्रसाद सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	मुकेश नरवाल	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	सावित्री बाई बोडाना	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	फिरोज खान	निर्दलीय
20		पार्षद	19	उन्नीस	शांता बाई मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	जितेंद्र कुमार भंडारी (जीतू भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	ब्रजराज गवली	निर्दलीय
23		पार्षद	22	बाईस	सपना आशीष शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	राजू भटोटोदरा	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1694.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, बडोद, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, बडोद, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	- -	रमेशकुंवर भेरू सिंह परिहार (बापू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
2		पार्षद	1	एक	रुकसार बी-फिरोज खान	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	चंदनबाला लखमीचन्द जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		पार्षद	3	तीन	तुलसीराम सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	फिरोजा पत्नि शाकीर हुसेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति माया शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	टमाबाई-दयाराम	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नरेन्द्र कुमार सोलंकी 'लाला'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अली हुसेन-अल्लानुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	मुकेश पिता गोपाल जी (पूर्व पार्षद)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	इशाक खां	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	भुरु खां हफीज खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	मेहराज बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	विष्णु लववंशी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मंजूबाला-मेघराज मोदी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संगीताबाई विमलचंद जैन (नेताजी)	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1695.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, कानड, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद, कानड, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	-	-	नेहा कुमारी पिता दुर्गा प्रसाद पालीवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	भागवन्ती बाई पति गौरिशंकर सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मन्नी बाई पति भेरूलाल माली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	बाबुलाल पिता मांगीलाल सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	लाडकुवर पति सरदार सिंह चन्द्रावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	दिलीप कुमार पिता उमराव बीजापारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7		पार्षद	6	छः	गजराज सिंह भैसानिया “मंत्री”	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	सै. नासीर अली “मामू”	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	गोपाल बीजापारी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	आर्य दरबार सिंह पिता भोनीसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	दिनेश कुमार जगन्नाथ “अंकल”	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	पवित्रा बाई पति अनोखीलाल बीजापारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	कविता कालु सिंह	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	कैलाश चन्द्र बरेठा	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	लीला बाई पति जीवन प्रसाद शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	शांतिबाई पति गोकूल सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1696.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, नलखेडा, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, नलखेडा, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	-	-	प्रेम राठौर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रसीद खां ईसाक खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मोन्टी वर्षा सोनगरा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	जितेन्द्र गवली भानेज	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ओम पंडित	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	मुकेश कुमार सोनी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	भागवन्ता अशोक गायरी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	गोवर्धन सुर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	प्रेमचन्द बैरागी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	आशादेवी नन्दकिशोर श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुगनबाई w/o गोकुल मालवीय	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12		पार्षद	11	ग्यारह	अब्दुल नईम खॉन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	गीताबाई विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	गिर श्रीमती मानकुंवर मोहनगिर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रामेश्वर कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कौशल्या कन्हैयालाल जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1697.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सुसनेर, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद्, सुसनेर, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	-	-	-	जयकुंवर गजेन्द्र सिंह चन्द्रावत	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		रईस मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो		संतोष भावसार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन		रामश्री अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार		अभय जैन जम्बू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच		रीना योगेश पांडे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः		औम प्रकाश भेनिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात		इस्माईल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ		कलाबाई संजय कुमार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ		अंजुबाला मोहन कानुडिया	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस		जाबीर हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह		भवानीशंकर वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह		राणा प्रथम पाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह		मंजु कोमलचंद जैन	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह		नियामत खान	निर्दल्यी
16		पार्षद	15	पन्द्रह		शबनम बी सादिक खॉ	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1698.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सोयतकलां, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सोयतकलां, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	-	-	मोहनलाल माली	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कन्हैयालाल दांगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	अशोक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	शोभना अनिल भावसार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	गुड़डीबाई पति वल्लभ दांगी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कमल पालीवाल पिता माणकचन्द्र पालीवाल.	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुशीला-रामचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मेहरबान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	भगवान भावसार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	कान्तीबाई पति दौलतराम राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	प्रेमबाई-श्याम नागर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	उमा-बालचन्द्र प्रजापत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	मोहन राठौर (टेलर)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रविन्द्र सिंह चौहान (रीतु)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सरदार बाई पति रामनारायण मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हंस राज कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1699.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बडागांव, जिला आगर मालवा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, बडागांव, जिला आगर मालवा.	अध्यक्ष	-	-	उदयसिंह यादव पिता स्व. श्री मानसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	विनोद सुमन	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	ईश्वर यादव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रमेश यादव	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	ममता बाई पति विष्णुप्रसाद पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुन्दरलाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	छाया रघुनन्दन सुमन	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुरेश राव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	विरेन्द्रसिंह राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	मुन्नीबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मांगीलाल देवकिशन टेलर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अंसाबाई कटारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अवन्ताबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	यशोदा जयनारायण यादव (कप्तान)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	देबीसिंह पिता पन्नालाल मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनिता जगदिश विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.